



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

1 पौष 1936 (श0)  
(सं0 पटना 1051) पटना, सोमवार, 22 दिसम्बर 2014

---

गृह विभाग

अधिसूचना

11 दिसम्बर 2014

सं0 कारा/स्था० (वि०)—02—51/2014—6390—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह नियमावली “बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014” कही जा सकती है।  
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 के नियम 5(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“(2) वैसे आकस्मिक भृत्य, जो नियत पारिश्रमिक किसी रूप में प्राप्त कर रहे हो अथवा नियत वेतनमान के मूल प्रक्रम का न्यूनतम स्थिर वेतन प्राप्त कर रहे हैं और दिनांक 11.12.2006 या उससे पूर्व कार्य पर जिस किसी भी पदनाम से कार्य पर रखे गये हों, उन्हें नाई और सफाई मजदूर के स्वीकृत पदों के विरुद्ध विचारित करते हुए उनके नियमितीकरण के लिए नियुक्ति का एक अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात्, शेष बचे पद एवं इस प्रकार नियुक्त नाई/सफाई मजदूर/आकस्मिक भृत्य द्वारा रिक्त किये गये पदों पर बाह्य स्त्रोत से सरकार द्वारा, समय-समय पर, विहित प्रक्रिया एवं नियत विहित

वेतन/पारिश्रमिक पर सेवा ली जायेगी। साथ ही वैसे आकस्मिक भृत्यों को इस आशय का शपथ-पत्र भी देना होगा कि उन्हें सफाई मजदूर के रूप में सेवा नियमितीकरण किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में वे अन्य सदृश्य कार्य अथवा पद, यथा—चालक, बिजली मिस्त्री आदि पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे।”

3. बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 के नियम 6 (iv), 7 (क) (1) और 7 (क) (2) में प्रयुक्त शब्द “नाई/सफाई मजदूरों” शब्द “नाई/सफाई मजदूर/आकस्मिक भृत्यों” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,  
सरकार के अपर सचिव—  
सह—निदेशक (प्रशासन)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1051-571+300-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>